

क्रेडिट बैंक



2001 break EP before 5 years

क्रमांक
SL.No. SNSG 675234

CANARA BANK DEPOSIT GENERAL P. Code:

ग्राम कार्यालय, 112, जे सी रोड, बंगलूर

RECEIVED OFFICE : 112, J.C. ROAD, BANGALORE

1. Messrs. MS BILAY CONSTRUCTION PROP BILAY
SEANKAR PRASAD

2

3.

VILL AND POST ASTHAWAN PS ASTHAWAN

,NALANDA

the sum of (in words) RUPEES SIX LAKH FIFTY
SEVEN THOUSAND ONLY

Condition of Repayment

Value Date	Deposit Amount	Deposit Period	Rate of Interest (%) p.a	Total Interest	Maturity Date	Maturity Amount
08/09/2020	INR6,57,000.00	12 Month(s) 0 Day(s)	5.4	INR36,204.00	08/09/2021	INR6,93,204.00

The total interest payable and maturity value amount/part withdrawal mentioned herein are subject to TDS, as applicable from
time to time.

Prepared By

Supervisor

Please see on reverse for important information

कृते कोनरा बैंक
For Canara Bank

Authorised Signatory
प्रबंधक/Manager

अस्थानो, जिला-नालन्दा
Asthawan, Distt.-Nalanda

Pledge to

E.E. R.W.D. 302

Diviglor Hagar

कृते कोनरा बैंक
For Canara Bank

प्रबंधक/Manager

अस्थानो, जिला-नालन्दा
Asthawan, Distt.-Nalanda

नवीकरण विवरण / PARTICULARS OF RENEWALS

नवीकरण तिथि Renewal Date	खाता संख्या A/c No.	राशि Amount	सर्वाधि Period	से From	तक To	कब देय Due on	ब्याज दर R.O.I (%)	कुल ब्याज Total Interest	परिपक्वता राशि Maturity Value	पर्यवेक्षक Supervisor	प्रबंधक Manager
08/09/2021	4187401006	690049	12 M	08/09/21	08/09/2022	08/09/2022	5.1%	35871/-	725920/-		
08/09/2025	4187401006										

इस खाते की प्रतिभूति के एवज में लिए गए ऋणों का विवरण / PARTICULARS OF LOANS AGAINST SECURITY OF THIS DEPOSIT

ऋण संख्या के लिए प्रतिभूति Security for Loan No.	ऋण तिथि Date of Loan	पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर Signature of Supervisor	विमोचन तिथि Date of Release	पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर Signature of Supervisor

जो लागू है, उस पर निशान लगाएं / PLEASE TICK WHICHEVER IS APPLICABLE

Renewal for 08/09/2025

☐ कृपया इस जमा का नवीकरण आगे..... वर्ष..... महीने..... दिनों के लिये ब्याज सहित / रहित करें / Please renew this deposit together with/without interest accrued for further period of years..... months..... days.

☐ वर्तमान दंडात्मक प्रावधानों के अनुसार इस जमा को सीमित ब्याज सहित/रहित..... वर्ष..... महीने..... दिनों के लिए बदले/बढ़ाएं / Please convert / Extend this deposit with/without interest accrued into for a period of Years..... months..... days as per extant penal provisions.

☐ ब्याज दंडात्मक प्रावधानों के नियमों के अनुसार परिपक्वता के पहले चुकता करें / Please repay before maturity as per rules with extant penal provisions.

☐ कृपया धनागम/ब्याज..... खाता संख्या..... में जमा करें / Please credit the proceeds/interest to A/c no.....

☐ कृपया धनागम..... प्रत्यावर्ति करें / Please repatriate the proceeds.....

पूर्ण निवृत्तन पर ब्याज सहित मेरी / हमारी खाता संख्या..... में ₹..... (Rupees.....) only In full settlement of my/our A/c No..... inclusive of interest Received ₹.....

हस्ताक्षर सत्यापित / Signature verified

दिनांक / Date

महत्वपूर्ण सूचना / Important Information :

खाताधारक / कों के हस्ताक्षर / Signatures of Depositor/s

पर्यवेक्षक / प्रबंधक / Supervisor/Manager

1. यह जमा हस्तांतरित नहीं किया जा सकता / This Deposit is not transferable.

2. पुनः जमा निवेश के लिए ब्याज रिमाई आगर पर चक्रवर्ति किया जाएगा / Interest will be compounded on quarterly basis for re-investment deposits.

3. विनिर्दिष्ट हों तो इस जमा रसीद के जारी करने से 7 दिनों के अंदर शाखा प्रबंधक से संपर्क करें / In case of discrepancy, please contact Branch Manager within 7 days of issue of this Deposit receipt.

4. खाता खुलवाने के फार्म में समझित खंडों के आधार पर परिपक्वता तिथि पर लागू ब्याज दर पर समान अवधि के लिए इस जमा का नवीकरण बैंक कर देगा अन्य निर्देश, यदि कोई है तो, जमाकर्ता परिपक्वता तिथि से पहले उपलब्ध करेंगे। / The Bank shall be automatically renewing the rate of interest applicable for a similar period originally contracted the rate of interest applicable for the period as on the date of maturity based on the clause incorporated in the Account opening form. The Depositor is required to provide alternative instructions, if any, well in advance before the date of maturity.

5. इस जमा के एवज में ऋण के लिए ब्याजगत रूप से इस जमा रसीद के साथ संपर्क करें / For advances against this deposit, please call on us personally, with this Deposit receipt.

6. परिपक्वता तिथि के पहले का आहरण / अधिक आहरण / विस्तार आदि पर लागू दंड लगेगा / Withdrawal/part withdrawal/Extension of this Deposit before maturity date attract penalty as applicable.

7. परिपक्वता तिथि पर जमा का नवीकरण नहीं किया जाता तो परिपक्वता तिथि से नवीकरण के बाद बैंक पर लागू ब्याज दर इस जमा पर संदेय होगा / The Bank shall be paying interest at applicable Savings Bank Interest rate from the date of maturity till the date of encashment if the deposit is not renewed on the maturity date and encashed thereafter.

For CANARA BANK
प्रबंधक, निदेशा, मलिका
Ashwani, Distt. Malinda



भारतीय डाक



India Post

BR-5

SAVINGS BANK PASSBOOK

DEPARTMENT OF POSTS, INDIA

POST OFFICE	An ch'BD Asthawan
SCHEME	RD 020040924102
ACCOUNT NO.	1 78

visit us - www.indiapost.gov.in

सामान्य अनुदेश

1. पासबुक जमाकर्ता के लिए, उसके द्वारा किए गए लेनेदेन का रिकार्ड है और इसमें दर्शाये गए शेष पर वैधानिक रूप से दावा नहीं किया जा सकता।
2. जमाकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि यह पासबुक में दर्शाये शेष की पुष्टि संबंधित डाकघर से करें और डाकघर अपने रिकार्ड में दर्शाई जानेवाली वास्तविक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
3. किसी भी प्रयोजन के लिए पासबुक डाकघर को सौंपने पर डाकघर से उसकी मुद्रित पावती हमेशा लें।
4. पासबुक को हमेशा निजी अभिरक्षा में रखें, किसी अन्य व्यक्ति को पासबुक सौंपने की स्थिति में पैसे की किसी प्रकार की हानि होने पर डाकघर उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
5. पासबुक में कहीं पर भी नमूना हस्ताक्षर न करें।
6. लेन-देन के बाद पासबुक में दर्ज शेष की जांच और किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर पोस्टमास्टर से तुरंत संपर्क करें।
7. पासबुक गुम होने की स्थिति में पोस्टमास्टर को तुरंत लिखित में शिकायत करें।
8. यदि पते में कोई बदलाव हो तो इसकी सूचना पोस्टमास्टर को दें।
9. प्राधिकृत एजेंट सहित किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षर किया हुआ बिना भरा (ब्लैंक) निकासी फार्म न सौंपें।
10. अपने खाते से पैसे की निकासी के लिए पोस्टमास्टरों या प्राधिकृत एजेंटों को संदेशवाहक के तौर पर नियुक्त न करें।

Photograph	जमाकर्ता का नाम	Pledge to E.E.
P.O Name :	Depositor(s) Name	R.D. Narayan
Scheme Description :	TERM DEPOSIT FOR ONE	
Account Number	: 020040924102	28/05/22
Name of Depositor(s) :		
Mandatory For SCSS 2004	SHANKAR PRASAD	
पता/Address	838272238	
2: /		
CIF		
3: /		
जन्म तिथि/Date of Birth		
First Depositor Address :		
पिता/अभिभावक का नाम		
Name of Parent/Guardian		
(in case of minor)		
जारी करने की तारीख/Date of Issue		
BIHAR, 803107		
खाते का प्रकार		
Account Open Date	: 28-05-2022	चेक खाता (हाँ/नहीं)
Account Type		
Maturity Date	: 28-05-2023	Cheque A/c (Y/N)
आप/Account No.		
Operation	: SELF	
Date Of Birth	: 20-01-1980	
Pan No.		
Nominee Registered		(for SCSS-2004 only)
पोस्टमास्टर ID		
नामांकन	8310	रजिस्ट्री की तारीख
के हस्ताक्षर		
Interest		
(Rupees Eight Thousand five Hundred Eightynine)		
Deposit Amount (in Rs)	: 153000.00	
Signature		
of Postmaster Of Post Number		
Nomination		
Date of Registration		
		28/05/22

तारीख
Date

लेनदेन का विवरण
Particulars of Transaction

जमा
Deposit

निकासी
Withdrawal

बकाया
Balance

स.ह.
Initial

28-05-2022 T/ CI Tran. For Principal No.

153000.00

153000.

Renewal for 28/05/2027

POSTMASTER

ASHAWAN POST OFFICE

SB-5

Department of Posts, India



Passbook National (Small) Savings Schemes

Post Office	Asthawan
CIF ID	838272238
Account No.	020007114222
Scheme	3 year TD

For more information visit : www.indiapost.gov.in
For Net Banking : ebanking.indiapost.gov.in

सामान्य अनुदेश

1. पासबुक जमाकर्ता के लिए, उसके द्वारा किए गये लेनदेन का रिकॉर्ड है और इसमें दर्शाये गए शेष पर वैधानिक रूप से दावा नहीं किया जा सकता।
2. जमाकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह पासबुक में दर्शाये शेष की पुष्टि सम्बन्धित डाकघर से करें और डाकघर अपने रिकॉर्ड में दर्शाई जाने वाली वास्तविक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
3. किसी भी प्रयोजन के लिए पासबुक डाकघर को सौंपने पर डाकघर से उसकी मुद्रित पावती हमेशा लें।
4. पासबुक को हमेशा अपनी निजी अभिरक्षा में रखें, किसी अन्य व्यक्ति को पासबुक सौंपने की स्थिति में पैसे की किसी प्रकार की हानि होने पर डाकघर उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
5. पासबुक में कहीं पर भी नमूना हस्ताक्षर न करें।
6. लेन-देन के बाद पासबुक में दर्ज शेष की जांच करें और किसी प्रकार की विषमताएं पाए जाने पर पोस्टमास्टर से तुरन्त संपर्क करें।
7. पासबुक गुम होने की स्थिति में पोस्टमास्टर को तुरन्त लिखित में शिकायत करें।
8. यदि पते में कोई बदलाव हो तो इसकी सूचना पोस्टमास्टर को दें।
9. प्राधिकृत एजेंट सहित किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षर किया हुआ बिना भरा (बैंक) निकासी फार्म न सौंपें।
10. अपने खाने से पैसे की निकासी के लिए पोस्टमास्टरों या प्राधिकृत एजेंटों को सर्वशुल्क के तौर पर नियुक्त न करें।

Salient features of National Savings Schemes/Small Savings Schemes is available at <https://www.indiapost.gov.in/Financial/Pages/Content/Post-Office-Savings-Scheme.aspx> and details are available at <https://www.indiapost.gov.in/VAS/Pages/RTI/RTI-Manual-5.aspx>

P.O Name : Asthawan S.O

Scheme Description : TERM DEPOSIT FOR THREE

Account Number : 020007114222

Name of Depositor(s) :

1: VIJAY SHANKAR PRASAD/

CIF - 838272238

2: /

CIF -

3: /

CIF -

First Depositor Address

ASTHAWAN/

ASTHAWAN/

ASTHAWAN

NALANDA

BIHAR, 803107

Account Open Date : 15-03-2021

Maturity Date : 15-03-2024

Mode Of Operation : SELF

Date Of Birth : 20-01-1980

Nominee Registered : Y

Agent ID : Five : MI8031070100004

Yearly Interest Payable (approx) (in Rs) : 59510

(Rupees Fifty Nine Thousand Five Hundred Ten

Deposit Amount (in Rs) : 1060000.00

(Rupees Ten Lakh Sixty Thousand)

Signature Of Postmaster :

POSTMASTER (S/S)
ASTHAWAN POST OFFICE

1513121

तारीख
Date

लने देने का विवरण
Particulars of Transactions

15-03-2021 T/CI Tran for Principal Amt

(21.211) MAT2A.MT204
01710 T201 HAWA.MT2A

जमा
Deposit

निकासी
Withdrawal

बकाया
Balance

स. ह.
Initials

1060000.00

1060000.00